



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 18.02.21

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

### थाना चन्दन चौकी पुलिस द्वारा 120 पउआ अवैध नेपाली ब्रान्ड देशी शराब सहित अभियुक्त रघुराम को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना चन्दन चौकी पुलिस द्वारा अभियुक्त रघुराम पुत्र बालकराम नि० सोहना थाना चन्दन चौकी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 120 पउआ (36 लीटर) अवैध नेपाली ब्रान्ड देशी शराब बरामद की गई। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 05/21 धारा 63 आबकारी अधिनियम व धारा 420 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

## थाना सिंगाही पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को किया गया

### गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 18.02.2021 को थाना सिंगाही पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्त 1. शत्रुधन पुत्र गयादीन निवासी पचपेडा थाना सिंगाही खीरी 2. द्वारिका पुत्र जनकी नि0 ग्राम शीतलापुर थाना सिंगाही खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

## वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अ0सं0 में 2432/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वारंटी अभियुक्त मलकीत सिंह पुत्र देवीलाल नि0 रामनगर चलोनी थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

## अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 35 लीटर अवैध कच्ची शराब, 02 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना धौरहरा	15 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना भीरा	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना खीरी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	35 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार